

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10—जनवरी 16, 2015 (पौष 20, 1936)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10—JANUARY 16, 2015 (PAUSA 20, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. ई-16013/आर.के.पी.-अ.म.नि./2014/कार्मिक-2/1422—राष्ट्रपति, श्री आर. के. पचनन्दा भा.पु.से. (प.बं. : 1983) को दिनांक 02.12.2014 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एयरपोर्ट सेक्टर, नई दिल्ली में अपर महानिदेशक पद में नियुक्त करते हैं।

जी. सी. यादव
उप सचिव (पुलिस)

सं. ई-16013/ओपीएस-एडीजी/2013/कार्मिक-2/1423—राष्ट्रीय आपदा त्वतरित बल (एन.डी.आर.एफ.) में महानिदेशक (अपर महानिदेशक लेवल) में रु. 67000—79000 के वेतनमान में पदभार ग्रहण करने की तिथि व दिनांक 15.01.2018 तक, नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री ओ. पी. सिंह, भा.पु.से. (यू.पी. : 83) ने दिनांक 02.12.2014 (पूर्वाह्न) से अपर महानिदेशक, कैऔसुब, एयरपोर्ट सेक्टर मुख्यालय, नई दिल्ली का पदभार छोड़ दिया है।

जी. सी. यादव
उप सचिव (पुलिस)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

सं. ओ.दो.-3679/2014-कार्मिक-डी.ए.-1-भारत सरकार ने श्री पियूष आनंद, भा.पु.से. (यू.पी. : 91) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु. 37,400-67,000/- के वेतन बैंड (पी.बी.-4) तथा ग्रेड वेतन रु. 10,000/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 02.01.2018 (उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि कुल 05 वर्ष) की अवधि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु.बल का कार्यभार दिनांक 05.12.2014 (अपराह्न) को ग्रहण कर लिया है।

एम. सी. पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 दिसम्बर 2014

सं. ओ.दो.-3680/2014-कार्मिक-डी.ए.-1-भारत सरकार ने श्री प्रकाश मिश्रा, भा.पु.से. (ओ.आर. : 77) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 80,000/- (तय/निर्धारित) में पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अधिवर्षिता की तिथि (29.02.2016) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, श्री प्रकाश मिश्रा, भा.पु.से. (ओ.आर. : 77) ने दिनांक 22.12.2014 पूर्वाह्न में महानिदेशक, के.रि.पु.बल का पदभार ग्रहण कर लिया है।

विवेक वैद
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

सं. पीडी/9(1)/2014-भर्ती-IV/14/15006-राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाये गये पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान	नियुक्ति तिथि
1.	डॉ. सुनीता केडीया	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	15600-39100 + 6600 (ग्रेड पे)	05.11.2014 (पूर्वाह्न)
2.	डॉ. देवेश राय	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	15600-39100 + 6600 (ग्रेड पे)	24.11.2014 (अपराह्न)
3.	डॉ. पारसमणि राजपूत	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	15600-39100 + 6600 (ग्रेड पे)	01.12.2014 (अपराह्न)
4.	डॉ. बल्ला मुरलि मोहन सागर	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	15600-39100 + 6600 (ग्रेड पे)	01.12.2014 (पूर्वाह्न)

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2324)/2014-भर्ती/2376-राष्ट्रपति, श्री रौशन कुमार को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर पीबी-3 के वेतन बैंड रु. 15600-39100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5400/- में रु. 16860/- के प्रारंभिक वेतन (2 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ सहित) + ग्रेड वेतन रु. 5400/- में दिनांक 01.08.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

जी. एस. करवाड़े
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2323)/2014-भर्ती/2381-राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर पीबी-3 के वेतन बैंड रु. 15600-39100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5400/- में रु. 16860/- के प्रारंभिक वेतन (2 अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ सहित) + ग्रेड वेतन रु. 5400/- में दिनांक 01.08.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

जी. एस. करवाड़े
प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रनि/प्र/3(2325)/2014-भर्ती/2384—राष्ट्रपति, श्री जितेन्द्र गुप्ता को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर पीबी-3 के वेतन बैंड रु. 15600—39100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5400/- में रु. 16860/- के प्रारंभिक वेतन (2 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) + ग्रेड वेतन रु. 5400/- में दिनांक 01.08.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

जी. एस. करवाड़े
प्रशासन अधिकारी—III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(21)-मणुगुरु/2014/6053—राष्ट्रपति, श्री अक्कीमल्ली श्रीकारा राव, स्टेशन ऑफिसर/बी (पीबी-3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400) बीएआरसी, मुंबई को दिनांक 30.09.2013 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पीबी-3, रु. 15600—39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400 में भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु में उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ए पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-मणुगुरु/2014/6068—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी सहायक लेखाकार, डी.पी.एस., इंदौर, श्री टी.वी.एस. राम सर्मा (पीबी-2, रु. 9300—34800 + ग्रेड वेतन रु. 4600) को दिनांक 18.08.2014 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9300—34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 में भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

नाभिकीय ईंधन समिश्त्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

सं. नाईस/काप्रभ I/03/03/2637—राष्ट्रपति द्वारा, श्री वेंकटेशन राजेश को जर्कोनियम परिसर, पलयकायल (नाभिकीय ईंधन समिश्त्र, हैदराबाद की इकाई) में वेतन बैंड-3 में रु. 15,600—39,100 व ग्रेड वेतन रु. 6,600/- सहित दिनांक 25.08.2014 के पूर्वाह्न से भावी आदेशों तक अस्थायी हैसियत में तकनीकी अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

के. रमेश
प्रशासन अधिकारी—III

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 18th December 2014

No. E.16013/RKP-ADG/2014/Pers-II/1422—The President is pleased to appoint Shri R. K. Panchananda, IPS (W.B. : 1983) as Additional Director General, Airport Sector Hqrs, Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the forenoon of 02.12.2014.

G. C. YADAV
Dy. Secy. (Police)

No. E-16013/OPS-ADG/2013/Pers-II/1423—Consequent upon appointment as Director General, NDRF (ADG level) in the Pay Scale of Rs. 67,000—79,000/- from the date of joining of the post and upto 15.01.2018, Shri O. P. Singh, IPS, Additional Director General, CISF has relinquished the charge of the post of ADG, CISF, Airport Sector Hqrs., New Delhi in the forenoon of 02.12.2014.

G. C. YADAV
Dy. Secy. (Police)

DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-03, the 8th December 2014

No. O.II-3679/2014-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Piyush Anand, IPS (UP : 91) as Inspector General (IG) in CRPF on deputation basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 10,000/- from the date of assumption of charge of the post and for the period upto 02.01.2018 (total tenure being 05 years of his Central deputation tenure) or until further orders, whichever is earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General, CRPF on the afternoon of 05.12.2014.

M. C. PANWAR
DIG (Pers.)

New Delhi-03, the 22nd December 2014

No. O.II-3680/2014-Pers-DA-I—The Govt. of India have appointed Shri Prakash Mishra, IPS (OR : 77) as Director General, CRPF in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the date of his joining the post and upto the date of his superannuation i.e. 29.02.2016 or until further orders, whichever is earlier.

2. Accordingly, Shri Prakash Mishra, IPS (OR : 77) has taken over the charge of the post of Director General, CRPF in forenoon of 22.12.2014.

VIVEK VAID, DIG (Pers.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 24th December 2014

No. PD 9(1)/2014-R-IV/14/15006—The President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the post in the Pay Band and Grade Pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders :—

Sl. No.	Name	Appointed as	Pay Band (‘)	Date of Appointment
1	2	3	4	5
1.	Dr. Sunita Kedia	Scientific Officer-D	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	05.11.2014 (FN)
2.	Dr. Debes Ray	Scientific Officer-D	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	24.11.2014 (AN)
3.	Dr. Parasmani Rajput	Scientific Officer-D	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	01.12.2014 (AN)
4.	Dr. Balla Murali Mohan Sagar	Scientific Officer-D	15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)	01.12.2014 (FN)

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officers

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 18th December 2014

No. DCSEM/A/3(2324)/2014-Rectt./2376—The President is pleased to appoint Shri Raushan Kumar as Scientific Officer/C in the Pay Band of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy on an initial Pay of Rs. 16,860/- (including 2 increments) + Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 01.08.2014 in a temporary capacity until further orders.

G. S. KARWADE
Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/3(2323)/2014-Rectt./2381—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar as Scientific Officer/C in the Pay Band of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy on an initial Pay of Rs. 16,860/- (including 2 increments) + Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 01.08.2014 in a temporary capacity until further orders.

G. S. KARWADE
Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/3(2325)/2014-Rectt./2384—The President is pleased to appoint Shri Jitendra Gupta as Scientific Officer/C in the Pay Band of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy on an initial pay of Rs. 16,860/- (including 2 increments) + Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 01.08.2014 in a temporary capacity until further orders.

G. S. KARWADE
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 23rd December 2014

No. HWB/R/1(21)-M/2014/6053—The President is pleased to appoint Shri Akkimalli Srikara Rao, Station Officer/B, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai (Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/-) to officiate as Deputy Chief Fire Officer/A on regular basis in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 30.09.2013 in a temporary capacity until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(16)-M/2014/6068—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri T.V.S. Rama Sarma, Assistant Accountant (Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/-)DPS, Indore to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant, Manuguru from the forenoon of 18th August, 2014 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 12th December 2014

No. NFC/PAR-I/03/03/2637—The President is pleased to appoint Shri Venkatesan Rajesh, as Tecnical Officer/D in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in Zirconium Complex, Pazhayakayal, (a unit of NFC, Hyderabad) in temporary capacity with effect from the forenoon of 25.08.2014, until further orders.

K. RAMESH
Administrative Officer-III

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in